

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

palukavEmi patita pAvana-Arabhi

In the kRti ‘palukavEmi patita pAvana’ – rAga Arabhi (tALa rUpakaM),
SrI tyAgarAja pleads with Lord to respond to him.

P palukav(E)mi patita pAvana karuNa
jilkav(E)mi sujana jIvana

C1 Orcina tApam(A)rcina
angalArcina enta nErcina (pa)

C2 talacina ninnu kolicina(y)enta
valacina bAga pilicina (pa)

C3 telipina manasu nilipina pUja
salipina matamu kalipina (pa)

C4 kAncina ninnu bhajincina ¹madamu
vancina uramunan(u)ncina (pa)

C5 paTTina enta tiTTina ninnu
juTTina padamu paTTina (pa)

C6 ADina ninnu pADina(y)enta
vEDina koniyADina (pa)

C7 kOrina marugu jErina ninnu
dUrina(y)enta pOrina (pa)

C8 telisina buddhi kalasina jUci
solasina pEru telisina (pa)

C9 mrokkina ²nI cE jikkina(y)entO
sokkina nIkE dakkina (pa)

C10 nAga rAja Sayana vEga rA SrI

tyAgarAja nuta ghRNA sAgara (pa)

Gist

O Redeemer of the fallen! O Livelihood of good people! O Lord reclining on SEsha! O Lord praised by this tyAgarAja! O Ocean of mercy!

Won't You speak to me?
Won't You shower Your grace on me?

Won't You speak to me -
whether I tolerate, or I subdue my sorrow, or I lament, or I learn much?

whether I think of You, or I worship You, or I love You much or I call You ardently?

whether I communicate to You, or I control my mind, or I perform worship, or I adhere to Your opinion?

whether I behold You, or I chant Your names, or I humble my pride, or I seat You in my bosom?

whether I get hold of You, or I scold You much, or I circumambulate You, or I hold Your holy feet?

whether I speak to You, or I sing about You, or I beseech You much, or I extol You?

whether I pray to You, or I hide from You, or I abuse You, or I struggle much with You?

whether I understand You, or I agree with You mentally, or I become tired looking for You, or I realise the true significance of Your name?

whether I salute You, or I am caught in Your hands, or I am enamoured much by You, or I submit to You alone?

Please come quickly.

Word-by-word Meaning

P Won't (Emi) You speak (palukavu) (palukavEmi) to me, O Redeemer (pAvana) of the fallen (patita)? Won't You (Emi) shower (jilkavu) (jilkavEmi) Your grace (karuNa) on me, O Livelihood (jIvana) of good people (sujana)?

C1 Whether I tolerate (Orcina), or I subdue (Arcina) my sorrow (tApamu) (tApamArcina), or I lament (angalArcina), or I learn (nErcina) much (enta),
won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C2 Whether I think (talacina) of You, or I worship (kolicina) You (ninnu), or I love (valacina) You much (enta) (kolicinayenta) or I call (pilicina) You ardently (bAga),
won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C3 Whether I communicate (telipina) to You, or I control (nilipina) (literally stop) my mind (manasu), or I perform (salipina) worship (pUJa), or I adhere (kalipina) to Your opinion (matamu),

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C4 Whether I behold (kAncina) You, or I chant (bhajincina) Your names (ninnu) (literally You), or I humble (vancina) my pride (madamu), or I seat (uncina) You in my bosom (uramunanu) (uramunanuncina),

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C5 Whether I get hold (paTTina) of You, or I scold (tiTTina) You much (enta), or I circumambulate (juTTina) You (ninnu), or I hold (paTTina) Your holy feet (padamu),

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C6 Whether I speak (ADina) to You, or I sing (pADina) about You (ninnu), or I beseech (vEDina) You much (enta) (pADinayenta), or I extol (koniyaADina) You,

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C7 Whether I pray (kOrina) to You, or I hide from You (marugu jErina) (literally to go under cover), or I abuse (dUrina) You (ninnu), or I struggle (pOrina) much (enta) (dUrinayenta) with You,

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C8 Whether I understand (telisina) You, or I agree (kalasina) with You mentally (buddhi), or I become tired (solasina) looking (jUci) for You, or I realise (telisina) the true significance of Your name (pEru),

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C9 Whether I salute (mrokkina) You, or I am caught (jikkina) in Your (nI) hands (cE), or I am enamoured (sokkina) much (entO) (jikkinayentO) by You, or I submit (dakkina) to You alone (nIkE),

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

C10 O Lord reclining (Sayana) on SEsha – the King (rAja) of serpents! Please come (rA) quickly (vEga); O Lord praised (nuta) by this tyAgarAja! O Ocean (sAgara) of mercy (ghRNA)!

won't You speak to me, O Redeemer of the fallen? Won't You shower Your grace on me, O Livelihood of good people?

Notes –

Variations -

General – 'rAma' is given at the end of each caraNa in some books.

¹ – madamu vancina – mudamu vancina : 'madamu vancina' seems to be appropriate.

² – nI cE jikkina – nIkE jikkina : 'nI cE jikkina' seems to be appropriate.

References –

Comments -

Devanagari

प. पलुक(वे)मि पतित पावन करुण
जिल्क(वे)मि सुजन जीवन

च1. ओर्चिन ताप(मा)र्चिन

अंगलार्चिन एन्त नेर्चिन (प)

च2. तलचिन निन्नु कोलिचिन(ये)न्त

वलचिन बाग पिलिचिन (प)

च3. तेलिपिन मनसु निलिपिन पूज

सलिपिन मतमु कलिपिन (प)

च4. काञ्चिन निन्नु भजिञ्चिन मदमु

वञ्चिन उरमुन(नु)ञ्चिन (प)

च5. पट्टिन एन्त तिट्टिन निन्नु

जुट्टिन पदमु पट्टिन (प)

च6. आडिन निन्नु पाडिन(ये)न्त

वेडिन कोनियाडिन (प)

च7. कोरिन मरुगु जेरिन निन्नु

दूरिन(ये)न्त पोरिन (प)

च8. तेलिसिन बुद्धि कलसिन जूचि

सोलसिन पेरु तेलिसिन (प)

च9. म्रोक्किन नी चे जिक्किन(ये)न्तो

सोक्किन नीके दक्किन (प)

च10. नाग राज शयन वेग रा श्री

त्यागराज नुत घृणा सागर (प)

English with Special Characters

pa. paluka(vē)mi patita pāvana karuṇa

jilka(vē)mi sujana jīvana

- ca1. ōrcina tāpa(mā)rcina
 aṃgalārcina enta nērcina (pa)
- ca2. talacina ninnu kolicina(ye)nta
 valacina bāga pilicina (pa)
- ca3. telipina manasu nilipina pūja
 salipina matamu kalipina (pa)
- ca4. kāñcina ninnu bhajiñcina madamu
 vañcina uramuna(nu)ñcina (pa)
- ca5. paṭṭina enta tiṭṭina ninnu
 juṭṭina padamu paṭṭina (pa)
- ca6. āḍina ninnu pāḍina(ye)nta
 vēḍina koniyāḍina (pa)
- ca7. kōrina marugu jērina ninnu
 dūrina(ye)nta pōrina (pa)
- ca8. telisina buddhi kalasina jūci
 solasina pēru telisina (pa)
- ca9. mrokkina nī cē jikkina(ye)ntō
 sokkina nīkē dakkina (pa)
- ca10. nāga rāja śayana vēga rā śrī
 tyāgarāja nuta ghrṇā sāgara (pa)

Telugu

- ప. పలుక(వే)మి పతిత పావన కరుణ
 జిల్క(వే)మి సుజన జీవన
- చ1. ఓర్చిన తాప(మా)ర్చిన
 అంగలార్చిన ఎస్త నేర్చిన (ప)
- చ2. తలచిన నిన్ను కొలిచిన(యె)స్త
 వలచిన బాగ పిలిచిన (ప)
- చ3. తెలిపిన మనసు నిలిపిన పూజ
 సలిపిన మతము కలిపిన (ప)

- చ4. కాజ్చిన నిన్ను భజిజ్చిన మదము
వజ్చిన ఉరమున(ను)జ్చిన (ప)
- చ5. పట్టిన ఎన్న తిట్టిన నిన్ను
జుట్టిన పదము పట్టిన (ప)
- చ6. ఆడిన నిన్ను పాడిన(యె)న్న
వేడిన కొనియాడిన (ప)
- చ7. కోరిన మరుగు జేరిన నిన్ను
దూరిన(యె)న్న పోరిన (ప)
- చ8. తెలిసిన బుద్ధి కలసిన జూచి
సొలసిన పేరు తెలిసిన (ప)
- చ9. మ్రొక్కిన నీ చే జిక్కిన(యె)న్నో
సొక్కిన నీకే దక్కిన (ప)
- చ10. నాగ రాజ శయన వేగ రా శ్రీ
త్యాగరాజ నుత ఘృణా సాగర (ప)

Tamil

- ప. పలుక(వే)మి పత్తిత పావన కరుణ
జ్జిలక(వే)మి సుజ్జన జ్జీవన
- స1. ఓర్శిన తాప(మా)ర్శిన
అంగక³లార్శిన గంత నేర్శిన (ప)
- స2. తలసిన న్నిన్ను కాలిసిన(యె)ంత
వలసిన పా³క పిలిసిన (ప)
- స3. తెలిపిన మనసు నిలిపిన పుజ్జ
సలిపిన మతమ్ర కలిపిన (ప)
- స4. కాంశిన న్నిన్ను ప⁴జ్జింశిన మత³మ్ర
వంశిన ఊరమ్రన(ను)ంశిన (ప)
- స5. పట్టిన గంత తిట్టిన న్నిన్ను
జుట్టిన పత్³మ్ర పట్టిన (ప)
- స6. ఆడి³న న్నిన్ను పాడి³న(యె)ంత
వేడి³న కొనియాడి³న (ప)
- స7. కేగిన మర్రుక్³ జేగిన న్నిన్ను
తూ³గిన(యె)ంత పోగిన (ప)
- స8. తెలిసిన పు³త్³తి⁴ కలసిన జ్జుశి
సెలసిన పేర్రు తెలిసిన (ప)
- స9. మర్రొక్కిన న్ని శే జ్జిక్కిన(యె)ంతో
సెలక్కిన న్నికే త³క్కిన (ప)
- స10. నాక³ రాజ్జ **స**యన వేక³ రా పున్
త్యాక³రాజ్జ న్నిత క⁴ర్రుణా సాక³ర (ప)

பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?

1. பொறுத்தாலும், வெம்மை தணித்தாலும்,
ஓலமிட்டாலும், எவ்வளவு சுற்றறிந்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
2. நினைத்தாலும், உன்னைத் தொழுதாலும், எவ்வளவு
காதலித்தாலும், நன்றாக அழைத்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
3. தெரிவித்தாலும், மனதையடக்கினாலும், வழிபாடு
செய்தாலும், எண்ணமொருமித்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
4. கண்டாலும், உன்னை பஜித்தாலும், செருக்கை
யடக்கினாலும், நெஞ்சிலிருத்தினாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
5. பிடித்தாலும், எவ்வளவு திட்டினாலும், உன்னைச்
சுற்றினாலும், திருவடியினைப் பற்றினாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
6. பேசினாலும், உன்னைப் பாடினாலும், எவ்வளவு
வேண்டினாலும், புகழ்ந்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
7. கோரினாலும், மறைவில் சென்றாலும், உன்னைத்
தூற்றினாலும், எவ்வளவு போராடினாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
8. தெரிந்துகொண்டாலும், அறிவு கலந்தாலும், (வழி) நோக்கிக்
களைத்தாலும், பெயரையறிந்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?
9. வணங்கினாலும், உனது கையில் சிக்கினாலும், எவ்வளவோ
சொக்கினாலும், உனக்கே பணிந்தாலும்,
பேசமாட்டாயோ, வீழ்ந்தோரைப் புனிதப்படுத்துவோனே?
கருணை பொழிமாட்டாயோ, நல்லோரின் வாழ்வே?

ಚ೦. ನಾಗೆ ರಾಜ ಶೆಯನ ಪೇಗೆ ರಾ ಶ್ರೀ
ತ್ಯಾಗೆರಾಜ ನುತ ಫೈಣಾ ಸಾಗೆರ (ಪ)

Malayalam

- ವ. ಪಲುಕ(ವೇ)ಮಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಕರುಣ
ಜೀಲಕ(ವೇ)ಮಿ ಸುಜನ ಜೀವನ
- ಪ1. ಓರ್ಚಿನ ತಾಪ(ಮಾ)ರ್ಚಿನ
ಊಂಘಲಾರ್ಚಿನ ಏಱಱ ನೇರ್ಚಿನ (ಪ)
- ಪ2. ತಲಪಿನ ನಿನ್ನು ಕೊಲಿಪಿನ(ಯೆ)ಱ
ವಲಪಿನ ಖಾಘ ಪಿಲಿಪಿನ (ಪ)
- ಪ3. ತೊಲಿಪಿನ ಮನಸು ನಿಲಿಪಿನ ಪುಜ
ಸಲಿಪಿನ ಮತಮು ಕಲಿಪಿನ (ಪ)
- ಪ4. ಕಾಣಿನ ನಿನ್ನು ಜೇಱಿನ ಮರಮು
ವಣಿನ ಊರಮು(ನು)ಣಿನ (ಪ)
- ಪ5. ಪತ್ತಿನ ಏಱಱ ತಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನು
ಜುತ್ತಿನ ಪರಮು ಪತ್ತಿನ (ಪ)
- ಪ6. ಊಢಿನ ನಿನ್ನು ಪಾಢಿನ(ಯೆ)ಱ
ವೇಢಿನ ಕೊನಿಯಾಢಿನ (ಪ)
- ಪ7. ಕೊಠಿನ ಮರುಘು ಜೇಠಿನ ನಿನ್ನು
ಝಠಿನ(ಯೆ)ಱ ಪೊಠಿನ (ಪ)
- ಪ8. ತೊಲಿಸಿನ ಖುಱಿ ಕಲಸಿನ ಜುಪಿ
ಸೊಲಸಿನ ಪೇರು ತೊಲಿಸಿನ (ಪ)
- ಪ9. ಂಢಾಕನಿನ ನೆ ಪೇ ಜೀಕನಿನ(ಯೆ)ಱ
ಸೊಕನಿನ ನೆಕೇ ಝಕನಿನ (ಪ)
- ಪ10. ನಾಘ ರಾಜ ಘನ ವೇಘ ರಾ ಘ್ರೀ
ತ್ಯಾಘರಾಜ ನುತ ಫೈಱಾ ಸಾಘರ (ಪ)

Assamese

- ಪ. ಪಲೂಕ(ರೇ)ಮಿ ಪತಿತ ಪಾರನ ಕರಣ
ಜಿಙ್ಕ(ರೇ)ಮಿ ಸುಜನ ಜೀರನ
- ಚ1. ಓಱಿನ ತಾಪ(ಮಾ)ಱಿನ
ಅಂಗಲಾಱಿನ ಅಱ ನೇಱಿನ (ಪ)
- ಚ2. ತಲಱಿನ ನಿಱ್ಱು ಕೊಲಿಱಿನ(ಯೆ)ಱ
ಝಲಱಿನ ವಾಘ ಪಿಲಿಱಿನ (ಪ)
- ಚ3. ತೊಲಿಪಿನ ಮನಸು ನಿಲಿಪಿನ ಪುಜ
ಸಲಿಪಿನ ಮತಮು ಕಲಿಪಿನ (ಪ)
- ಚ4. ಕಾಙ್ಙಿಱಿನ ನಿಱ್ಱು ಡಿಜಿಙ್ಙಿಱಿನ ಮದಮು

- ৱক্ষিওন উৰমুন(নু)ক্ষিওন (প)
চ৫. পট্টিন এন্ত তিট্টিন নিম্ন
জুট্টিন পদমু পট্টিন (প)
চ৬. আডিন নিম্ন পাডিন(য়ে)ন্ত
ৱেডিন কোনিয়াডিন (প)
চ৭. কোৰিন মৰুগু জেৰিন নিম্ন
দূৰিন(য়ে)ন্ত পোৰিন (প)
চ৮. তেলিসিন বুদ্ধি কলসিন জুচি
সোলসিন পেরু তেলিসিন (প)
চ৯. শ্ৰোক্ষিন নী চে জিক্ষিন(য়ে)ন্তো
সোক্ষিন নীকে দক্ষিন (প)
চ১০. নাগ ৰাজ শয়ন ৱেগ ৰা শ্ৰী
অগৰাজ নুত ঘণা সাগৰ (প)

Bengali

- প. পলুক(বে)মি পতিত পাবন করুণ
জিঙ্ক(বে)মি সুজন জীবন
চ১. ওর্চিন তাপ(মা)র্চিন
অংগলার্চিন এন্ত নের্চিন (প)
চ২. তলচিন নিম্ন কোলিচিন(য়ে)ন্ত
বলচিন বাগ পিলিচিন (প)
চ৩. তেলিপিন মনসু নিলিপিন পূজ
সলিপিন মতমু কলিপিন (প)
চ৪. কাক্ষিওন নিম্ন ভজিক্ষিওন মদমু
বক্ষিওন উৰমুন(নু)ক্ষিওন (প)
চ৫. পট্টিন এন্ত তিট্টিন নিম্ন

जूट्टिन पदमु पट्टिन (प)

च७. आडिन निम्नु पाडिन(ये)ञ्च

वेडिन कोनियाडिन (प)

च९. कोरिन मरुगु जेरिन निम्नु

दूरिन(ये)ञ्च पोरिन (प)

च८. तेलिसिन बुद्धि कलसिन जूट्टि

सोलसिन पेरु तेलिसिन (प)

च९. सोक्किन नी चे जिक्किन(ये)ञ्चो

सोक्किन नीके दक्किन (प)

च१०. नाग राज शयन बेग रा श्री

आगराज नूत घणा सागर (प)

Gujarati

५. पल्लुङ्क(वे)मि पतित पावन डरुङ्क

विङ्क(वे)मि सुणन प्रवन

५१. ओर्यिन ताप(मा)र्यिन

अंगलोर्यिन अन्त नेर्यिन (प)

५२. तलेयिन निष्णु डाँलियिन(यँ)न्त

वलेयिन आग पिलियिन (प)

५३. तँलियिन मनसु निलियिन पूण

सलियिन मतमु डलियिन (प)

५४. डाँच्यिन निष्णु भविच्यिन मधमु

वच्यिन उरमुन(नु)च्यिन (प)

५५. पट्टिन अन्त तिट्टिन निष्णु

पुट्टिन पधमु पट्टिन (प)

५६. आडिन निष्णु पाडिन(यँ)न्त

वेडिन डाँनियाडिन (प)

५७. कोरिन मरुगु वरिन निष्णु

दूरिन(यँ)न्त पोरिन (प)

५८. तँलिसिन बुद्धि डलसिन पूथि

सॉलसिन पेरु तँलिसिन (प)
चट. म्रॉस्किन नी ये विस्किन(यं)न्तो
सॉस्किन नीके दस्किन (प)
च१०. नाग राय शयन वेग रा श्री
त्यागराय नुत घृण्ण सागर (प)

Oriya

ପ. ପଲ୍ଲକ(ଝେ)ମି ପତିତ ପାଞ୍ଚନ କରୁଣ

ଜିଲ୍ଲକ(ଝେ)ମି ସୁଜନ ଜୀଞ୍ଚନ

ଚ୧. ଓର୍ଚିନ ତାପ(ମା)ର୍ଚିନ

ଅଂଗଲାର୍ଚିନ ଏନ୍ତ ନେର୍ଚିନ (ପ)

ଚ୨. ତଲଚିନ ନିନ୍ନୁ କୋଲଚିନ(ୟେ)ନ୍ତ

ଞ୍ଚଲଚିନ ବାଗ ପିଲଚିନ (ପ)

ଚ୩. ତେଲିପିନ ମନସୁ ନିଲିପିନ ପୁଜ

ସଲିପିନ ମତମୁ କଲିପିନ (ପ)

ଚ୪. କାଞ୍ଚିନ ନିନ୍ନୁ ଭଜିଞ୍ଚିନ ମଦମୁ

ଞ୍ଚଞ୍ଚିନ ଭରମୁନ(ନ୍ନୁ)ଞ୍ଚିନ (ପ)

ଚ୫. ପଞ୍ଚିନ ଏନ୍ତ ତିଞ୍ଚିନ ନିନ୍ନୁ

ଜୁଞ୍ଚିନ ପଦମୁ ପଞ୍ଚିନ (ପ)

ଚ୬. ଆଡିନ ନିନ୍ନୁ ପାଡିନ(ୟେ)ନ୍ତ

ଞ୍ଚେଡିନ କୋନିୟାଡିନ (ପ)

ଚ୭. କୋରିନ ମରୁଗୁ ଜେରିନ ନିନ୍ନୁ

ଦୁରିନ(ୟେ)ନ୍ତ ପୋରିନ (ପ)

ଚ୮. ତେଲିସିନ ବୁଞ୍ଚି କଲସିନ ଜୁଚି

ସୋଲସିନ ପେରୁ ତେଲିସିନ (ପ)

ଚ୯. ମ୍ରୋଞ୍ଚିନ ନୀ ତେ ଜିଞ୍ଚିନ(ୟେ)ନ୍ତେ।

ସୋଞ୍ଚିନ ନୀକେ ଦଞ୍ଚିନ (ପ)

ଚ୧୦. ନାଗ ରାଜ ଶୟନ ଖେଗ ରା ଶ୍ରୀ

ਭਾਗਿਯ ਨੂਠ ਘੁੰਗਾ ਬਾਗਿਯ (੯)

Punjabi

੫. ਪਲੁਕ(ਵੇ)ਮਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰੁਣ
ਜਿਲਕ(ਵੇ)ਮਿ ਸੁਜਨ ਜੀਵਨ
੧. ਓਰਿਚਨ ਤਾਪ(ਮਾ)ਰਿਚਨ
ਅੰਗਲਾਰਿਚਨ ਏਨਤ ਨੇਰਿਚਨ (੫)
੨. ਤਲਚਿਨ ਨਿੱਨੁ ਕੋਲਿਚਿਨ(ਯੇ)ਨਤ
ਵਲਚਿਨ ਬਾਗ ਪਿਲਿਚਿਨ (੫)
੩. ਤੇਲਿਪਿਨ ਮਨਸੁ ਨਿਲਿਪਿਨ ਪੂਜ
ਸਲਿਪਿਨ ਮਤਮੁ ਕਲਿਪਿਨ (੫)
੪. ਕਾਵਿਚਨ ਨਿੱਨੁ ਭਜਿਵਿਚਨ ਮਦਮੁ
ਵਵਿਚਨ ਉਰਮੁਨ(ਨੁ)ਵਿਚਨ (੫)
੫. ਪੱਟਿਨ ਏਨਤ ਤਿੱਟਿਨ ਨਿੱਨੁ
ਜੁੱਟਿਨ ਪਦਮੁ ਪੱਟਿਨ (੫)
੬. ਆਡਿਨ ਨਿੱਨੁ ਪਾਡਿਨ(ਯੇ)ਨਤ
ਵੇਡਿਨ ਕੋਨਿਯਾਡਿਨ (੫)
੭. ਕੋਰਿਨ ਮਰੁਗੁ ਜੇਰਿਨ ਨਿੱਨੁ
ਦੂਰਿਨ(ਯੇ)ਨਤ ਪੋਰਿਨ (੫)
੮. ਤੇਲਿਸਿਨ ਬੁਦਿਧ ਕਲਸਿਨ ਜੂਚਿ
ਸੋਲਸਿਨ ਪੇਰੁ ਤੇਲਿਸਿਨ (੫)
੯. ਮੁੱਕਿਨ ਨੀ ਚੇ ਜਿੱਕਿਨ(ਯੇ)ਨਤੋ
ਸੋਕਿਨ ਨੀਕੇ ਦੱਕਿਨ (੫)
੧੦. ਨਾਗ ਰਾਜ ਸ਼ਯਨ ਵੇਗ ਰਾ ਸ਼੍ਰੀ
ਤਜਾਗਰਾਜ ਨੁਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਸਾਗਰ (੫)